



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1939 (श10)

(सं0 पटना 86) पटना, वृहस्पतिवार, 1 फरवरी 2018

मुख्य अभियंता का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

कार्यालय आदेश
15 जनवरी 2018

सं० सं०मु०अ०ल०ज०सं०/अनु०-170/2017-91—जिला अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक-33/मु०/स्था० दिनांक 28.04.2017 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व० महेश प्रसाद, भू०पू० कोषरक्षक, लघु सिंचाई अंचल, गया के आश्रित पुत्र श्री दिलीप कुमार दिपक को लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय परिचारी पद के विरुद्ध कार्यालय परिचारी के पद पर वेतनमान वेतन स्तर-1 (18000-56900/-) रुपये में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

- (ii) श्री दिलीप कुमार दिपक पत्र प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने, संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व० महेश प्रसाद के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा करा लिया जायेगा।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र सं० 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री दिलीप कुमार दिपक को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के

समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार दिपक की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

- (v) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो कियी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- (vi) वित्त विभाग के संकल्प सं० 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
- (vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
- (ix) योगदान करने हेतु श्री दिलीप कुमार दिपक को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- (x) अपने सम्पूर्ण वेतन से प्रतिमाह 25 प्रतिशत की राशि अपनी माँ एवं अन्य आश्रित सदस्यों को भरण पोषण हेतु देना अनिवार्य होगा।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 86-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>